

Details	
Depot/Route	
L. Spl. trip on route 188—0710 hrs.	Converted as usual ordinary trip.
<i>OkMa Depot-I</i>	
407	Curtailed at R.K. Puram.
417	Operating between Red Fort and Press Enclavt modified in the Sector between MGKR Hospital and Paras to cpnti . vie Greater Kailasb-I.
467	Diverted to operate via Rao Tula Ram Marg.
411, 450, 454 & 470	Increased in running time.
<i>Okhla Depot-II</i>	
409, 438, 451	Increased in mnnng time.
<i>Vasant Vihar Depot</i>	
56	Extended from R.K. Puram to Vasant Vihar (T).
660	Changed to operate via Sansad Marg.

एटा टेलीफोन केन्द्र में पुरानी मशीनों का लगाया जाना

1486- श्रीमती सत्या बहिन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोदी नगर टेलीफोन केन्द्र से अनुपयोगी मशीन को हटाकर एटा टेलीफोन केन्द्र में लगाया गया था, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) मोदी नगर टेलीफोन केन्द्र से ऐसी मशीन को हटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) एटा में नई मशीन कब तक लगाई जायेंगी और इस संबंध में सरकार ने क्या प्रवृत्ति है ताकि इस अनुपयोगी मशीन के कारण बार-बार टेलीफोन खराब होने की शिकायतों को दूर किया जा सके ?

संचार यंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०बी० रंगैया नायडू) : (क) मोदी नगर में फ़ालतूट्टे टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर को एटा एक्सचेंज के विस्तार के लिए एटा में संस्थापित किया गया था ताकि प्रतीक्षा सूची का निपटा किया जा सके। यह तथ्य सही

नहीं है कि यह उपस्कर पुराना हो चुका था।

(ख) मोदीनगर में टेलीफोन एक्सचेंज को पुराने स्थान से नए स्थान पर शिफ्ट करने के कारण उपर्युक्त उपस्कर फ़ालतू हो गया था।

(ग) एटा में 1992-93 के दौरान 1000 लाइनों के एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की संस्थापना करने की योजना है। एटा स्थित मौजूदा एक्सचेंज उपस्कर को बदले जाने तक, इसकी नियमित मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

Expenditnre on printing of postal station any

1487. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY:

SHRI SARADA MOHANTY:

SHRI CHANDRA MOHAN SINHA;

Will the Minister of COMMUNICA-j
TIONS be pleased to state:

(a) what is the total amount spent as-i
nually for printing of postal stamps tacte-

sive postal cards, inland letters, envelopes and forms of different kinds;

(b) which are the printing presses used for the purpose with the break-up of percentage of total printing;

(c) whether Government are satisfied with the productivity of its own postal printing press;

(d) if so, whether more work of printing postal forms is proposed to be allotted to the existing postal printing press; and

(e) whether Government are proposing to go for the expansion of the existing printing press?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The total amount spent on printing of forms is Rs. 17.71 crores average for last three financial years. Information regarding the total amount spent annually for printing of postage stamps, post cards, inland letters and envelopes is being collected and will be placed on the Table- of the House.

(b) The Department utilises the Government of India Presses (at Aligarh, Korat, Nasik and Santragaehi, Cal-cutta) as well as the departmental Press at Bhubaneswar and printing of forms is also undertaken by the Heads of Postal Circles through private presses.

The approximate percentage of printing done by the three types of presses is indicated below:—

Government of India Press	50%
Department Press	1%
Private Presses	43 %

The postage stamps, post cards, inland letters, cards and envelopes are being printed at India Security Press, Nashik and Security Printing Press, Hyderabad. Information regarding the break-up of the percentage of printing between the two presses is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) Efforts are on to increase the productivity.

(d) Yes, Sir. More work is proposed to be allotted to the postal printing Press at Bhubaneswar after expansion of its capacity,

(e) Yes, Sir.

बृहत् नेपाल का प्रस्ताव

1488. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1991 के 'स्टेट्समैन' में सेक्टर टेक्म सीरियस नोट" शी 'क के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने कतिपय स्वार्थी तत्वों की देश के कतिपय भाग को मिलाकर एक बृहत् नेपाल बनाये जाने की मांग की ओर ध्यान दिया है ;

(ग) क्या सरकार इस मांग को उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए अचिकर और हानिकर सिद्ध करने के लिए विकास कार्य शुरू करने तथा कतिपय अन्य ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) से (ग) सरकार को समाचार की जानकारी है। सरकार को इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सरकार किसी भी स्त्रोत से की जाने वाली इस प्रकार की मांगों को नहीं मानती है। जी०एन० एल० एफ० के साथ हुए समझौते के अनुसार क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास और गोरखाओं और दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अन्य समुदायों के सांस्कृतिक विकास के लिये एक स्वतन्त्र दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का गठन किया गया है।